



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 101) पटना, सोमवार, 1 फरवरी 2016

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

28 जनवरी 2016

सं0 वानिकी निगम-02/14-330/प0व0—बिहार केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को दी जाने वाली मजदूरी निर्धारण के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत मौसम वर्ष 2016 में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए अधिसूचित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी इकाई के लिए 50,000 (पचास हजार) केन्दु पत्ती प्रति मानक बोरा के लिए दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. सरकारी वन भूमि से प्राप्त होने वाली केन्दु पत्ती-1,070 (एक हजार सत्तर) रुपये प्रति मानक बोरा।
2. रैयती भूमि से प्राप्त होने वाले केन्दु पत्ती-1,070 (एक हजार सत्तर) रुपये प्रति मानक बोरा।
3. यह दर 30 जून, 2016 तक प्रभावी रहेगा।
4. प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को उक्त संग्रहण दर पर भुगतान अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकृत पदाधिकारी/एजेंट के द्वारा किया जायेगा।
5. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 101-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>